

## अमेरिका-भारत परमाणु सहयोग और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर

### प्रारंभिक परीक्षा के लिये:

[स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर](#), [यूरेनियम](#), [जीवाश्म ईंधन](#), [कृत्रिम बुद्धिमत्ता](#), [भारत-अमेरिका परमाणु समझौता](#), [परमाणु अप्रसार संधि](#), [अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी](#)

### मुख्य परीक्षा के लिये:

परमाणु ऊर्जा से संबंधित भारत का विकास, परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के भारत के तरीके।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

### चर्चा में क्यों?

हाल के घटनाक्रमों से भारत और अमेरिका के बीच असैन्य परमाणु समझौते के पुनरुद्धार पर प्रकाश पड़ा है जो होलटेक इंटरनेशनल के [स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर \(SMR-300\)](#) पर केंद्रित है।

- होलटेक का उद्देश्य भारत की ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिये भारत के साथ सहयोग करना तथा SMR पर नियोजन के लिये [मौजूदा कोयला संयंत्रों का उपयोग कर एवं संयुक्त वननिर्माण की संभावना तलाश कर स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करना है](#), जिससे [भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण](#) उद्देश्यों के साथ समन्वय स्थापित हो सके।

### SMR-300 क्या है?


- परिचय:** SMR-300 एक उन्नत **दाबित हल्का जल रिएक्टर** है, जिसमें **वर्षा** के माध्यम से कम से कम 300 मेगावाट (MWe) वदियुत शक्ति उत्पन्न करने के लिये [लो इनरचिड यूरेनियम ईंधन का उपयोग](#) होता है।
- कॉम्पैक्ट डिज़ाइन:** SMR-300 के लिये पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में काफी **कम भूमिकी आवश्यकता** होती है जिससे यह भारत में मौजूदा कोयला संयंत्रों के लिये उपयुक्त है।
- स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिये समर्थन:** यह प्रौद्योगिकी भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों के लिये महत्वपूर्ण है जो बढ़ती ऊर्जा मांगों (वशिष रूप से [कृत्रिम बुद्धिमत्ता](#) और [डेटा केंद्रों](#) जैसे प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में) को देखते हुए [जीवाश्म ईंधन के लिये एक प्रतिसिपर्द्धी विकल्प प्रदान](#) करती है।
  - SMR विकसित करके भारत का लक्ष्य **वैश्विक परमाणु बाज़ार में एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में अपनी स्थिति बनाना** है तथा रूस और चीन जैसे स्थापित हतिधारकों के साथ प्रतिसिपर्द्धा करना है।
- भारत में SMR-300 के कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियाँ:**
  - परमाणुवीय नुकसान के लिये सविलि दायित्व अधिनियम, 2010:** इस अधिनियम के तहत **मुख्य रूप से उपकरण निर्माताओं पर दायित्व** डालकर वदिशी परमाणु आपूर्तिकर्त्ताओं के लिये चुनौतियाँ पैदा होती हैं।
    - परणामस्वरूप दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाली संभावित वित्तीय देनदारियों की चिंता के कारण कई संभावित साझेदार **भारत के परमाणु क्षेत्र में नविश करने से पीछे हट रहे हैं**।
    - नरियात वनियमन:** अमेरिकी परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1954 के तहत होलटेक जैसी अमेरिकी कंपनियों द्वारा भारत में परमाणु उपकरण बनाने पर प्रतर्बिध होने से SMR घटकों के स्थानीय उत्पादन की संभावना जटिल हो जाती है।
    - वधियायी सीमाएँ:** भारत के मौजूदा वधियायी ढाँचे में **दायित्व संबंधी कानूनों में संशोधन करने के लिये लचिलेपन का अभाव** है, जिससे वदिशी संस्थाओं के साथ सहज सहयोग में बाधा उत्पन्न होती है।
    - भारत में SMR-300 से संबंधित भविष्य की संभावनाएँ:** SMR प्रौद्योगिकी पर सहयोग से अमेरिका-भारत संबंधों में वृद्धि होने के साथ दोनों देशों की तकनीकी बाधाओं और श्रम लागत चुनौतियों का समाधान हो सकता है।

## भारत-अमेरिका परमाणु समझौता

- भारत **-अमेरिका परमाणु समझौते को** अमेरिका-भारत असैन्य परमाणु समझौते के रूप में भी जाना जाता है, जिस पर वर्ष 2008 में हस्ताक्षर किये गए थे। यह समझौता वर्ष 2005 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वारा दिये गए संयुक्त वक्तव्य के साथ हुआ था।
  - इस समझौते का उद्देश्य **दोनों देशों के बीच असैन्य परमाणु सहयोग को सुवर्धित बनाना था**, जो अमेरिकी नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव था, जिसने पहले **परमाणु अप्रसार संधि (NPT)** पर हस्ताक्षर न करने के कारण **भारत के साथ परमाणु व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया था**।
- भारत-अमेरिका परमाणु समझौता, जिसे प्रायः **"123 समझौता"** कहा जाता है, अमेरिकी कंपनियों को भारत के असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिये **परमाणु ईंधन और प्रौद्योगिकी की आपूर्ति करने की अनुमति देता है**।
- भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के एक भाग के रूप में, भारत ने अपने असैन्य परमाणु कार्यक्रम के लिये **अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) से निरीक्षण की अनुमति देने की प्रतिबद्धता जताई थी**।
- **भारत को लाभ: भारत को यूरेनियम संवर्द्धन और प्लूटोनियम के पुनर्संसाधन हेतु सामग्री और उपकरण समेत अमेरिका से दोहरे उपयोग वाली परमाणु प्रौद्योगिकी को** क्रय करने की पात्रता प्राप्त हुई।
  - इस समझौते से भारत की ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि होने तथा परमाणु ऊर्जा के माध्यम से इसकी बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद थी।

## स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) क्या है?

- **परिचय:** IAEA के अनुसार, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) उन्नत परमाणु रिएक्टर होते हैं, जिन्हें बेहतर सुरक्षा और दक्षता के लिये डिज़ाइन किया गया है। उनकी वदियुत उत्पादन क्षमता आमतौर पर **30 MWe से लेकर 300 MWe से अधिक तक होती है**।
- **वैशिष्टताएँ:**
  - **स्मॉल:** पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की तुलना में भौतिक रूप से छोटे, जिससे विभिन्न स्थानों पर लचीले ढंग से तैनाती की सुविधा मिलती है।
  - **मॉड्यूलर:** कारखाने में संयोजन के लिये डिज़ाइन किया गया, जिससे आसान स्थापना के लिये एक पूर्ण इकाई के रूप में परिवहन संभव हो सके।
  - **रिएक्टर:** वदियुत उत्पादन या प्रत्यक्ष अनुप्रयोगों के लिये ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु परमाणु विखंडन का उपयोग करते हैं।
- **SMR प्रौद्योगिकी की वैश्विक स्थिति: वैश्विक स्तर पर 80 से अधिक SMR, उन्नत डिज़ाइन और लाइसेंसिंग के विभिन्न चरणों में हैं**, जिनमें से कुछ पहले से ही संचालित हैं। ये डिज़ाइन विभिन्न श्रेणियों में आते हैं।
  - **भूमि-आधारित जल-शीतित SMR:** इसमें परंपरिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए इंटीग्रेल प्रेशराइज्ड वॉटर रिएक्टर (PWR) और बॉयलिंग वॉटर रिएक्टर (BWR) जैसे डिज़ाइन शामिल हैं।
  - **समुद्री-आधारित जल-शीतित SMR:** समुद्री वातावरण में तैनाती के लिये डिज़ाइन किया गया है, जैसे जहाजों पर स्थापित तैरती इकाइयाँ।
  - **हाई टेंपरेचर गैस-कूल्ड (HTGR): 750 डिग्री सेल्सियस** से अधिक ताप उत्पन्न करने में सक्षम, जिससे ये वदियुत उत्पादन और विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिये कुशल बन जाते हैं।
  - **लकड़िये मेटल कूल्ड फास्ट न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रम SMR (LMFR):** सोडियम और सीसा जैसे शीतलक के साथ फास्ट न्यूट्रॉन प्रौद्योगिकी का उपयोग।
  - **मोल्टन साल्ट रिएक्टर SMR (MSR):** इसमें मोल्टन फ्लोराइड या क्लोराइड लवण को शीतलक के रूप में उपयोग किया जाता है, जिससे लंबे ईंधन चक्र और ऑनलाइन ईंधन आपूर्ति की क्षमता प्राप्त होती है।
  - **माइक्रो रिएक्टर (MR): अत्यंत छोटे SMR, जो** विभिन्न शीतलकों का उपयोग करके आमतौर पर **10 मेगावाट तक वदियुत शक्ति** उत्पन्न करने के लिये डिज़ाइन किये गए हैं।



**नोट:** अब तक, विश्व स्तर पर दो SMR परियोजनाएँ परचालन स्तर पर पहुँच चुकी हैं। जसिमें रूस की अकादमिक लोमोनोसोव फ्लोटिंग पॉवर यूनिट और चीन की हाई टेंपरेचर गैस-कूल्ड (HTGR) पेबल-बेड शामिल है।

## SMR के लाभ और चुनौतियाँ क्या हैं?

SMR के लाभ	SMR से संबंधित चुनौतियाँ
SMR को अलग-अलग वदियुत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये <b>बढ़ाया या घटाया जा सकता है</b> । मौजूदा वदियुत संयंत्रों को <b>शून्य-उत्सर्जन ईंधन से पूरक बनाया जा सकता है</b> या पुराने थर्मल पॉवर स्टेशनों का पुनः उपयोग किया जा सकता है।	वभिन्न SMR प्रौद्योगिकियों की अलग-अलग वनियामक आवश्यकताएँ होती हैं। बड़े पैमाने पर तैनाती के लिये उचित तकनीक को प्राथमिकता देना और <b>प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर (TRL) में सुधार करना महत्त्वपूर्ण है</b> ।
SMR आधारित वदियुत संयंत्रों में ईंधन भरने में प्रत्येक 3 से 7 वर्ष का समय लगता है, जबकि पारंपरिक संयंत्रों में ईंधन भरने में 1 से 2 वर्ष का समय लगता है, तथा कुछ संयंत्रों को ईंधन भरे बिना 30 वर्षों तक संचलित होने के लिये डिज़ाइन किया गया है।	SMR प्रतस्पर्द्धात्मकता के लिये आपूर्ति शृंखला के मुद्दे महत्त्वपूर्ण हैं। लचीली वैश्विक आपूर्ति शृंखला निर्माण के लिये और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।
SMR <b>नषिकरयि सुरक्षा सुविधाओं का उपयोग करते हैं जो बिना वदियुत या मानवीय हस्तक्षेप के रिएक्टर को बंद करने और ठंडा करने के लिये भौतिकी पर निर्भर करते हैं</b> , जसिसे अंतरनहिति सुरक्षा सुनिश्चित होती है।	SMR से <b>रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न होता है</b> जसिके लिये भंडारण और नपिटान सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जसिसे सामाजिक-राजनीतिक प्रतरोध उत्पन्न हो सकता है।
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ एकीकृत किया जा सकता है, जसिसे नयून कार्बन वाले सह-उत्पाद प्राप्त होते हैं। दैनिक और मौसमी आधार पर ऊर्जा आपूर्ति में उतार-चढ़ाव को कम करता है।	अभिनव डिज़ाइनों के साथ अनुभव की कमी सुरक्षा मानक अनुमोदन को जटिल बनाती है। परमाणु आपदाओं के भय से सार्वजनिक वरिोध उत्पन्न हो सकता है, जसिसे चर्चाओं को दूर करने के लिये प्रभावी जागरूकता और सहभागिता की आवश्यकता होती है।

## भारत की SMR वकिस आकांक्षाओं में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **तकनीकी असमानताएँ:** भारत की वर्तमान परमाणु प्रौद्योगिकी, जो मुख्य रूप से भारी जल और प्राकृतिक यूरेनियम पर आधारित है, विश्व स्तर पर प्रमुख हलके जल रिएक्टरों (LWRs) के साथ समन्वय करने में असमर्थ होती जा रही है।
  - SMR में परिवर्तन के लिये, जसिमें वभिन्न प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जा सकता है, महत्त्वपूर्ण तकनीकी अनुकूलन और विशेषज्ञता वकिस की आवश्यकता होती है।
- **उच्च बाह्य लागत:** हालाँकि SMR को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिये डिज़ाइन किया गया है, लेकिन **सुरक्षित रिएक्टरों के निर्माण** और प्रयुक्त परमाणु ईंधन के प्रबंधन की लागत **परियोजना के व्यय को काफी बढ़ा सकती है**, जसिसे आर्थिक व्यवहार्यता जटिल हो सकती है।
- **नियामक संबंधी बाधाएँ:** मौजूदा परमाणु नियामक ढाँचे मुख्य रूप से **बड़े रिएक्टरों के लिये डिज़ाइन किये गए हैं**, जनिमें SMR-वशिष्ट वशिषताओं को समायोजित करने के लिये अद्यतनीकरण की आवश्यकता है।
  - वविधि SMR प्रौद्योगिकियों और डिज़ाइनों को संबोधित करने वाले एक व्यापक वनियामक ढाँचे की स्थापना महत्त्वपूर्ण है।
- **सार्वजनिक स्वीकृति और सुरक्षा धारणा:** नवीन SMR डिज़ाइनों के संबंध में लोकसूचना का अभाव, **चेरनोबिल आपदा जैसी परमाणु आपदाओं**

